

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251298  
SG-DL-E-12012024-251298असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2024/पौष 21, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 378
No. 11]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2024/PAUSHA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 378

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

फा. सं. 1/31/1138/एलसी/स्था./भर्ती नियम/वरि.प्रयो.सहा./2023/6760.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सरकार की दिनांक 08.02.1988 की अधिसूचना सं. फा. 10(83)/87—श्रम/स्था./1745—49 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रयोगशाला सहायक (वरिष्ठ) तथा प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को "प्रयोगशाला सहायक (वरिष्ठ) तथा प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ)" भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची-I

1.	पदनाम	:	प्रयोगशाला सहायक (वरिष्ठ)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह-‘ग’
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रुपये 29200-92300/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं

10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदान्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति/पदोन्ति
11.	यदि पदोन्ति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्ति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	<p><b>प्रतिनियुक्ति/पदोन्ति :</b></p> <p>1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-04 में नियमित आधार पर पद की नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई 5 वर्षों की सेवा सहित;</p> <p>तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले -</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम. एससी (रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान)।</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) किसी सरकारी प्रयोगशाला अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कार्य करने के दो वर्ष के अनुभव सहित किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान के साथ बी0एससी।</p> <p>2. ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-04 में विभागीय प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि पद पर नियुक्ति हेतु उसका चयन हो जाता है, तो उसे पदोन्ति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों (03) से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्ति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	लागू नहीं
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

**अनुसूची-II**

1.	पदनाम	:	प्रयोगशाला सहायक (कनिष्ठ)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023)* * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर

3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह-‘ग’
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25500-81100 /-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	<p>18-25 वर्ष*</p> <p>(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।)</p> <p><b>टीप:-</b></p> <p>आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथाविज्ञापित होगी।</p> <p>* यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।</p>
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	<p><b>अनिवार्य:</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ बी0ए0एससी।</p> <p><b>टीप:</b></p> <p>अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	<p>समूह ‘ग’ विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)</p> <p>1. प्रधान सचिव/सचिव (लो.नि.वि.) —अध्यक्ष</p> <p>2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य</p> <p>3. उप-सचिव (शह.वि.) —सदस्य</p> <p><b>टीप :-</b> यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम</p>

			सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश तथा उनके नाम पर,  
विजय चांदना, उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)

## LABOUR DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2024

**F. No. 1/31/1138/LC/Estt./Rectt.Rules/Lab.Asstt.Sr./2023/6760.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13<sup>th</sup> July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. 10(83)/87-Labour/Estt./1745-49 dated 08.02.1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Laboratory Assistant (Senior) and Laboratory Assistant (Junior)** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:**

- These rules may be called "Laboratory Assistant (Senior) and Laboratory Assistant (Junior)" Recruitment Rules, 2023.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay:** The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.:** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications:** No person,

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE-I

1.	Name of post	Laboratory Assistant (Senior)
2.	No. of Posts	01* (2023) * Subject to variation dependent on work-load
3.	Classification	General Central Service, Non-Gazetted,

		Non-Ministerial, Group 'C'
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non- selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any	Not Applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Deputation/Promotion
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	<p><b>Deputation/Promotion:</b></p> <p>1. Officers of the Central Govt./State Govt., Union Territories:</p> <p>a)</p> <p>i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>ii) with 5 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-04 of pay matrix in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>b) Possessing following qualifications and experience:</p> <p>i) M.Sc (Chemistry/ Bio-Chemistry) from a recognized university or institution</p> <p>or</p> <p>ii) B.Sc with Chemistry or Bio-Chemistry as one of the subject with two years of experience of working in a Government Laboratory or any other recognized Laboratory.</p> <p>2. The Departmental Laboratory Assistant (Junior) in Level-04 of Pay Matrix with 5 years of regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled up by promotion.</p> <p>(Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or another organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)</p>
12.	If a Departmental Promotion Committee, exists, what is its composition	Not Applicable
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

**SCHEDULE-II**

1.	Name of post	Laboratory Assistant (Junior)
2.	No. of Posts	01* (2023)* Subject to variation dependent on work-load
3.	Classification	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group 'C'
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level – 4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non- selection	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruit	18 to 25 years* (The upper age limit is relaxable for Departmental Candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB.  *In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<b>Essential:</b> B.Sc. with Chemistry as one of the subject from a recognized University or Institution. <b>Note:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any	2 years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee, exists, what is its composition	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):  1. Pr. Secretary/ Secretary (PWD) - <b>Chairperson</b> 2. Head of Department Concerned - <b>Member</b> 3. Deputy Secretary (UD) - <b>Member</b>  <b>Note:</b> Senior Most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn)